

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 10—जनवरी 16, 2015 (पौष 20, 1936)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 10—JANUARY 16, 2015 (PAUSA 20, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सं. दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I —खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2015

थल सेना विभाग

सं० 5, तारीख 22 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

रक्षा सुरक्षा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार(जी डी)	बलबीर सिंह	(जे सी 528531डब्ल्यू)	19 सितम्बर 2013
सूबेदार(जी डी)	बीरेन्द्र सिंह	(जे सी 528477एन)	26 मार्च 2014
सूबेदार(जी डी)	रंजीत सिंह	(जे सी 221025 के)	17 मार्च 2014
सूबेदार(जी डी)	राजेन्द्रा प्रसाद	(जे सी 257737वाई)	01 अप्रैल 2014
सूबेदार(जी डी)	किशन सिंह	(जे सी 841075डब्ल्यू)	10 मार्च 2014
सूबेदार(जी डी)	बहादुर सिंह	(जे सी 402340 पी)	01 मई 2014
सूबेदार(जी डी)	बहादुर सिंह	(जे सी 538460 एन)	01 मई 2014
सूबेदार(जी डी)	बिशन सिंह जाट	(जे सी 841357एम)	01 मई 2014

स्थाई सूबेदार मेजर/लिपिक (एस डी) के रैंक में			
सूबेदार/लिपिक (एस डी)	धरम पाल सिंह	(जे सी 842034डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2014
सूबेदार/लिपिक (एस डी)	ए हरीदासन	(जे सी 842135 के)	01 मई 2014
स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में			
नायब सूबेदार (जी डी)	गंगाराम चिट्टी	(जे सी 257899 एच)	17 जुन 2012
नायब सूबेदार (जी डी)	राजन एम वाई	(जे सी 841494एल)	01 अगस्त 2010
नायब सूबेदार (जी डी)	थोमस एम डी	(जे सी 841969के)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	बक्शीश सिंह	(जे सी 267444ए)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	गोविंद गुरुंग	(जे सी 842075ए)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	देव सिंह	(जे सी 412623के)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	अशोक कुमार	(जे सी 580526ए)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	तेज पाल	(जे सी 374898एल)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	एम फकुरुददीन	(जे सी 266264डब्ल्यू)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	गुरमित सिंह	(जे सी 349129डब्ल्यू)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	बीरेन्द्रा कुमार सिंह	(जे सी 558433एल)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	एम राजेन्द्रन	(जे सी 842474के)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	राजिन्दर सिंह	(जे सी 842544एक्स)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	कवल सिंह	(जे सी 842598वाई)	20 मई 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	होशियार सिंह	(जे सी 403120एक्स)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	मल्कित सिंह	(जे सी 842623एम)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	दर्शन पाल सिंह	(जे सी 842624पी)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	राजिन्दर सिंह	(जे सी 842625एक्स)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	परकाश	(जे सी 842626ए)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	सिद्धगनेश अशोक अमबद	(जे सी 842627एच)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	हुकम चन्द	(जे सी 842628एल)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	वेद परकाश	(जे सी 842629एच)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	मोहिन्दर सिंह	(जे सी 842634वाई)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	एस के अब्दुल रफीक	(जे सी 842636के)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	शिवजी तिवारी	(जे सी 842639के)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	जरनैल सिंह	(जे सी 842642एक्स)	01 मई 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	सुरिन्दर कुमार, एस०एम०	(जे सी 592230एन)	01 मई 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	गुरजन्त सिंह	(जे सी 348330पी)	01 मई 2014
स्थाई सूबेदार(जी डी) के रैंक में			
नायब सूबेदार (जी डी)	के शनमुगम	(जे सी 439224के)	01 मई 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	भरत लाल सिंह	(जे सी 469163एम)	01 मई 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	सत्यपाल सिंह	(जे सी 263323एफ)	01 मई 2014
स्थाई सूबेदार/लिपिक (एस डी) के रैंक में			
नायब सूबेदार लिपिक (एस डी)	शमशेर सिंह	(जे सी 842633डब्ल्यू)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार लिपिक (एस डी)	वेनुगोपालन पी वी	(जे सी 842671एम)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार लिपिक (एस डी)	पाटिल भरत वामन	(जे सी 842673एक्स)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार लिपिक (एस डी)	ए पीटर फ्रांसिस	(जे सी 842675एच)	01 मई 2014
नायब सूबेदार लिपिक (एस डी)	जितेन्द्र प्रताप मोहंती	(जे सी 842680एन)	01 मई 2014

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार मेजर (जी डी)	राम चन्द्रा थापा	(जेसी-612334वाई)	पहले 4जी आर	22 जून 2013
सूबेदार मेजर (जी डी)	ज्ञान बहादुर गुरुंग	(जेसी-617543ए)	पहले 5जी आर	22 जून 2013
सूबेदार मेजर (जी डी)	के बी मुथू पांडियन	(जेसी-367911एफ)	पहले सिगनल्स	22 जून 2013
सूबेदार मेजर (जी डी)	मिल्खा सिंह	(जेसी-508502ए)	पहले सीख लाई	23 जून 2013
सूबेदार मेजर (जी डी)	सुरेश चन्द, एस एम	(जेसी-239206एक्स)	पहले आर्मड	25 जून 2013

स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में

सूबेदार (जी डी)	तसदीक	(जेसी-350132एच)	पहले बी ई जी के	22 जून 2013
सूबेदार (जी डी)	सुरेन्द्रा सिंह थापा	(जेसी-623765एल)	पहले 5 जी आर	22 जून 2013
सूबेदार (जी डी)	राम लक्ष्मण थापा	(जेसी-612312ए)	पहले 4 जी आर	22 जून 2013
सूबेदार (जी डी)	खिम बहादुर थापा	(जेसी-602726वाई)	पहले 4 जी आर	22 जून 2013
सूबेदार (जी डी)	जगरूप सिंह	(जेसी-726472ए)	पहले ए ओ सी	22 जून 2013
सूबेदार (जी डी)	सुमेर सिंह इंदा	(जेसी-412793एन)	पहले पारा	22 जून 2013
सूबेदार (जी डी)	मैत बहादुर पून	(जेसी-617812एफ)	पहले 5 जी आर	22 जून 2013
सूबेदार (जी डी)	टिका राम श्रेष्ठा	(जेसी-634280एच)	पहले 11 जी आर	22 जून 2013
सूबेदार (जी डी)	चन्द्रा पाल प्रजापति	(जेसी-349753पी)	पहले बी ई जी के	22 जून 2013
सूबेदार (जी डी)	गंगा प्रसाद पाण्डेय	(जेसी-241880ए)	पहले आर्मड	23 जून 2013
सूबेदार (जी डी)	योगम्बर सिंह, एस एम	(जेसी-412760एच)	पहले पारा	23 जून 2013
सूबेदार (जी डी)	प्रह्लाद राम मीना	(जेसी-241772डबल्यू)	पहले आर्मड	23 जून 2013
सूबेदार (जी डी)	चंदर सिंह	(जेसी-529570एफ)	पहले गढ़वाल	23 जून 2013
सूबेदार (जी डी)	जॉर्ज ब्रिट्टो	(जेसी-438751वाई)	पहले मद्रास	26 जून 2013
सूबेदार (जी डी)	एम राधाकृष्णन	(जेसी-439482के)	पहले मद्रास	27 जून 2013

स्थाई नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी डी)	गोबर्धन प्रधान	(जेसी-623663पी)	पहले 5 जी आर	22 जून 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	औति उत्तेशवर नागनाथ	(जेसी-351306के)	पहले बी ई जी के	22 जून 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	तप बहादुर राणा	(जेसी-602682एम)	पहले 4 जी आर	22 जून 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	कार्री कनका राव	(जेसी-378766पी)	पहले सिगनल्स	22 जून 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	ब्रह्म सिंह	(जेसी-375760एच)	पहले सिगनल्स	22 जून 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	खरका बहादुर गुरुंग	(जेसी-623600एम)	पहले 5 जी आर	22 जून 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	बीर बहादुर कार्की	(जेसी-623903एफ)	पहले 5 जी आर	22 जून 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	वी के सुरेसन	(जेसी-440686एच)	पहले मद्रास	23 जून 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	अर्जुन सिंह	(जेसी-412698एफ)	पहले पारा	23 जून 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	ब्रिज राज	(जेसी-843481एल)	पहले नौ सेना	23 जून 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	पूरन लाल पाली	(जेसी-240571एल)	पहले आर्मड	24 जून 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	उत्तम सिंह	(जेसी-413406ए)	पहले पारा	24 जून 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	जसवंत सिंह	(जेसी-726131पी)	पहले ए ओ सी	26 जून 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	गगन सिंह	(जेसी-520626एफ)	पहले डोगरा	26 जून 2013
सूबेदार मेजर (जी डी)	मूल चंद	(जेसी-488902एच)	पहले जाट	23 मार्च 2013
सूबेदार मेजर (जी डी)	याधवा मूर्ति जी	(जेसी-438779वाई)	पहले मद्रास	25 मार्च 2013
सूबेदार मेजर (जी डी)	परभात सिंह	(जेसी-260513एच)	पहले आर्टिलरी	29 मार्च 2013

स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में

सूबेदार (जी डी)	दिनेश सिंह	(जेसी-519461एफ)	पहले डोगरा	23 मार्च 2013
सूबेदार (जी डी)	गजेन्द्रा सिंह तोमर	(जेसी-758326एन)	पहले ई एम ई	23 मार्च 2013
सूबेदार (जी डी)	चन्द्रा मोहन सिंह	(जेसी-761794वाई)	पहले ई एम ई	23 मार्च 2013
सूबेदार (जी डी)	मदन लाल	(जेसी-754653एफ)	पहले ई एम ई	23 मार्च 2013
सूबेदार (जी डी)	रविन्द्रा सिंह यादव	(जेसी-270605एच)	पहले आर्टिलरी	24 मार्च 2013
सूबेदार (जी डी)	सलिम पी एच	(जेसी-458920डबल्यू)	पहले एम एल आई	23 मार्च 2013
सूबेदार (जी डी)	कृष्णा लाल घोष	(जेसी-370130वाई)	पहले सिगनल्स	23 मार्च 2013
सूबेदार (जी डी)	जय सिंह	(जेसी-489565एल)	पहले जाट	23 मार्च 2013
सूबेदार (जी डी)	दुर्गा सिंह गुरुंग	(जेसी-617688एल)	पहले 3 जी आर	23 मार्च 2013
सूबेदार (जी डी)	ब्रम प्रकाश	(जेसी-268290एल)	पहले आर्टिलरी	23 मार्च 2013

स्थाई नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी डी)	गोपाल दास	(जेसी-299743एम)	पहले ए ए डी	23 मार्च 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	ए इस्माइल	(जेसी-459370एल)	पहले एम एल आई	23 मार्च 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	रामेश्वर प्रसाद सिंह	(जेसी-375146एन)	पहले सिगनल्स	23 मार्च 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	अवतार सिंह सोही	(जेसी-277856पी)	पहले आर्टिलरी	23 मार्च 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	अनूप कुमार राणा	(जेसी-607559एक्स)	पहले 3 जी आर	23 मार्च 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	सुखबीर सिंह	(जेसी-264439के)	पहले आर्टिलरी	25 मार्च 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	छेरिंग वांगीयल	(जेसी-588138एक्स)	पहले एल स्काउट्स	23 मार्च 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	कृष्णा बहादुर पून	(जेसी-602571पी)	पहले 4 जी आर	23 मार्च 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	योगेन्द्रा कुमार	(जेसी-377300ए)	पहले सिगनल्स	23 मार्च 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	पदम प्रसाद लिम्बू	(जेसी-634605एल)	पहले 11 जी आर	23 मार्च 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	लखविन्दर सिंह	(जेसी-375340एच)	पहले सिगनल्स	23 मार्च 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	उत्तम चंद राणा	(जेसी-755103एल)	पहले ई एम ई	23 मार्च 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	ए मनिकन्दन	(जेसी-239364एम)	पहले आर्मड	23 मार्च 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	रामराज मौर्या	(जेसी-760370डबल्यू)	पहले ई एम ई	24 मार्च 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	सुदर्शन यादव	(जेसी-681181एल)	पहले ए एस सी	25 मार्च 2013

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार मेजर(जी डी)	इन्दर सिंह	(जेसी-529343एफ)	पहले गढ़वाल	26 अक्टूबर 2013
सूबेदार मेजर(जी डी)	जगदीश चन्द	(जेसी-579404के)	पहले जेक राइफल	26 अक्टूबर 2013
सूबेदार मेजर(जी डी)	बी पुरुषोत्थम चेट्टी	(जेसी-260237एल)	पहले आर्टिलरी	26 अक्टूबर 2013
सूबेदार मेजर(जी डी)	के सेल्वम	(जेसी-412616एन)	पहले पारा	26 अक्टूबर 2013
सूबेदार मेजर(जी डी)	कृष्णा नन्द तिवारी	(जेसी-539252एल)	पहले कुमोऊ	27 अक्टूबर 2013

स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में

सूबेदार (जी डी)	अवतार सिंह, एस एम	(जेसी-429567एम)	पहले पंजाब	26 अक्टूबर 2013
सूबेदार (जी डी)	जगतार सिंह	(जेसी-580457पी)	पहले जेक राइफल	26 अक्टूबर 2013
सूबेदार (जी डी)	सूर बीर सिंह	(जेसी-529726एन)	पहले गढ़वाल	26 अक्टूबर 2013
सूबेदार (जी डी)	डावल सिंह	(जेसी-530220एफ)	पहले गढ़वाल	26 अक्टूबर 2013
सूबेदार (जी डी)	राजेश सिंह	(जेसी-810751डबल्यू)	पहले आई एन टी	26 अक्टूबर 2013
सूबेदार (जी डी)	हेमा राम	(जेसी-375745एन)	पहले सिगनल्स	26 अक्टूबर 2013
सूबेदार (जी डी)	बाबू राम	(जेसी-593073वाई)	पहले जेक एल आई	26 अक्टूबर 2013

सूबेदार (जी डी)	जीवन सिंह	(जेसी-263155एन)	पहले आर्टिलरी	26 अक्टूबर 2013
सूबेदार (जी डी)	स्वर्ण सिंह	(जेसी-266186वाई)	पहले आर्टिलरी	26 अक्टूबर 2013
सूबेदार (जी डी)	विनोद कुमार पी	(जेसी-269010वाई)	पहले आर्टिलरी	26 अक्टूबर 2013
सूबेदार (जी डी)	केशर सिंह धामी	(जेसी-403452एफ)	पहले गार्ड्स	27 अक्टूबर 2013
सूबेदार (जी डी)	डी करुणागरन	(जेसी-439611वाई)	पहले मद्रास	27 अक्टूबर 2013
सूबेदार (जी डी)	परमहंस यादवा	(जेसी-663816डबल्यू)	पहले ए एस सी	31 अक्टूबर 2013

स्थायी नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी डी)	योंतन युग्नेस	(जेसी-588189एल)	पहले एल स्काउट्स	26 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	मेहर सिंह	(जेसी-499587एक्स)	पहले सिख	26 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	कुलवंत सिंह	(जेसी-430318ए)	पहले पंजाब	26 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	ब्रिज भान सिंह	(जेसी-420629ए)	पहले मेक	26 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	हरीश चन्द्रा कापरी	(जेसी-539770एल)	पहले कुमोऊ	26 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	गोविंद बल्लभ	(जेसी-540500एच)	पहले कुमोऊ	26 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	कुलबीर सिंह	(जेसी-580199ए)	पहले जेक राइफल	26 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	राजेन्द्रा प्रसाद	(जेसी-403900एच)	पहले गार्ड्स	26 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	सर्वजीत सिंह	(जेसी-499146एफ)	पहले सिख	26 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	मदन लाल शर्मा	(जेसी-508740एम)	पहले सिख एल आई	27 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	मनोहर सिंह कन्याल	(जेसी-338935एच)	पहले बी ई जी आर	27 अक्टूबर 2013

स्थायी सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार (जी डी)	बी पुरुषोत्थम छेट्टी	(जे सी 260237 एल)	19 दिसम्बर 2013
सूबेदार (जी डी)	नवल किशोर	(जे सी 418922 वाई)	19 दिसम्बर 2013
सूबेदार (जी डी)	जगदीश चन्द	(जे सी 579404 के)	19 दिसम्बर 2013
सूबेदार (जी डी)	ईन्दर सिंह	(जे सी 529343 एफ)	19 दिसम्बर 2013
सूबेदार (जी डी)	के सेलवम	(जे सी 412616 एन)	19 दिसम्बर 2013
सूबेदार (जी डी)	रविन्द्रा सिंह	(जे सी 143357 एन)	08 जुलाई 2014

स्थायी सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी डी)	बिक्रम कुमार	(जे सी 429122 ए)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	अरुण कुमार	(जे सी 842383 ए)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	अम्बा दत्त	(जे सी 662935 ए)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	टीका राम श्रेष्ठा	(जे सी 634280 एच)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	चन्दर सिंह	(जे सी 529570 एफ)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	चन्द्रा पाल प्रजापती	(जे सी 349753पी)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	सुरेन्द्रा सिंह थापा	(जे सी 623765एल)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	मैत बहादुर पून	(जे सी 617812एफ)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	अतीश कुमार दास देव सर्मा	(जे सी 239411वाई)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	एम राधाकृष्णन	(जे सी 439482के)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	चंचल सिंह	(जे सी 539054ए)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	अनिल कुमार	(जे सी 297409एम)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	सुखविन्दर सिंह	(जे सी 498699एल)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	बिम्बिषन पाण्डेय	(जे सी 261444के)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	दलविन्दर सिंह	(जे सी 498857पी)	19 दिसम्बर 2013

नायब सूबेदार (जी डी)	कृष्ण देव	(जे सी 519689एक्स)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	स्वरन सिंह	(जे सी 266186वाई)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	चैन सिंह	(जे सी 519665एन)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	अवतार सिंह, एस एम	(जे सी 429567एम)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	राजेश सिंह	(जे सी 810751डब्ल्यू)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	ऊदयबीर सिंह	(जे सी 756547एफ)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	राम करण गूजर	(जे सी 270705एम)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	केशर सिंह धामी	(जे सी 403452एफ)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	राकेश कुमार शर्मा	(जे सी 403691डब्ल्यू)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	रविन्दर कुमार	(जे सी 642811के)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	परमहंस यादवा	(जे सी 663816डब्ल्यू)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	तेजू राम प्रधान	(जे सी 634205वाई)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	रामेश्वर प्रसाद	(जे सी 568577एफ)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	भासमे विश्वास धोंधीराम	(जे सी 260073ए)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	जानेन्द्रा सिंह	(जे सी 478877एफ)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	अवतार सिंह	(जे सी 498936के)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	रोताश सिंह	(जे सी 478927एफ)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	धीयान सिंह	(जे सी 579606एल)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	जगन नाथ	(जे सी 519757ए)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	बोधराज	(जे सी 519861एन)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	वोकिल प्रसाद	(जे सी 842691ए)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	प्रहलाद राम जाट	(जे सी 241478डब्ल्यू)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	वीर सिंह	(जे सी 241606एच)	01 अगस्त 2014

स्थायी सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार (जी डी)	नरिन्दर कुमार चंडेल	(जे सी 578764 एन)	19 दिसम्बर 2013
सूबेदार (जी डी)	कनवर सिंह	(जे सी 478462 एम)	02 जून 2014
सूबेदार (जी डी)	देस राज	(जे सी 239250 एफ)	04 जून 2014
सूबेदार (जी डी)	रामबीर सिंह	(जे सी 841180 के)	01 जुलाई 2014

स्थायी सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी डी)	बलराम सिंह	(जे सी 264070 के)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	प्राग सिंह	(जे सी 265480 एम)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	धरमवीर	(जे सी 267403 डब्ल्यू)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	तेज सिंह खंगरोट	(जे सी 469707 डब्ल्यू)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	तयाडे गंगाधर अनन्दा	(जे सी 459604 के)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	मुलनी नजरुदीन अल्ली	(जे सी 459687 ए)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	धीर बहादुर गुरुंग	(जे सी 612569एल)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	सरन सिंह	(जे सी 592410डब्ल्यू)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	दन बहादुर कारकी	(जे सी 629689ए)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	पाला मुकेश चन्द्रा सी	(जे सी 843213एच)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	ससीधरन पिल्ले पी	(जे सी 874225एल)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	श्री राम खीचर	(जे सी 842229एफ)	19 दिसम्बर 2013

नायब सूबेदार (जी डी)	जंगशेर सिंह	(जे सी 498742एफ)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	विजय किशोर सिंह	(जे सी 240496एम)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	बी रमेश	(जे सी 438566एल)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	लाल सिंह	(जे सी 265232डब्ल्यू)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	बलवन्त सिंह	(जे सी 412583एन)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	कानता प्रसाद, एस एम	(जे सी 528955पी)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	जगदेव सिंह	(जे सी 842280एफ)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	धरम सिंह	(जे सी 498454 पी)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	राम कुमार	(जे सी 419600एल)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	देवीन्दर सिंह	(जे सी 258120एन)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	प्रधान सिंह	(जे सी 842290एल)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	ताशी वांगीयाल	(जे सी 588190ए)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	भुपेन्द्र सिंह	(जे सी 499113डब्ल्यू)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	खेम बहादुर गुरुंग	(जे सी 612476डब्ल्यू)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	ईमान सिंह गुरुंग	(जे सी 623495एफ)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	नेक राम	(जे सी 520227एक्स)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	प्रेम सिंह	(जे सी 450180एक्स)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	प्रेम काजी गुरुंग, एस एम	(जे सी 612355पी)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	दुर्गा सिंह गुरुंग	(जे सी 617688एल)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	मदन लाल	(जे सी 754653एफ)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	रविन्द्र सिंह यादव	(जे सी 270605एच)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	निर्मल सिंह	(जे सी 829222वाई)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	सुन्दर सिंह	(जे सी 842456एफ)	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (जी डी)	राम सरन	(जे सी 842650डब्ल्यू)	01 जून 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	मोहम्मद अकरम	(जे सी 592366एक्स)	02 जुलाई 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	गन्धर्व सिंह तोमर	(जे सी 842682वाई)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	जय भगवान	(जे सी 842683एफ)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	नेतर पाल सिंह	(जे सी 842686पी)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	मेहरा अमर सिंह	(जे सी 219601के)	02 जुलाई 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	सोमन पिल्ले जी	(जे सी 347171डब्ल्यू)	04 जुलाई 2014
नायब सूबेदार (जी डी)	दीदार सिंह	(जे सी 508446एम)	02 जुलाई 2014

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

*	हवलदार (जी डी)	देशमुख रमेश बाजी राव	(10436083 एम अब जे सी 843521एच)	21 जनवरी 2014
*	हवलदार (जी डी)	जंग बहादुर ठाकुर	(10373328 ए अब जे सी 843523 एन)	24 फरवरी 2014
*	हवलदार (जी डी)	हंस राज	(10389511 एम अब जे सी 843530 के)	24 जनवरी 2014
*(नायब सूबेदार(जी डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013)				
**	हवलदार (जी डी)	राजबीर सिंह	(4551252 डब्ल्यू अब जे सी 843539 वाई)	30 जनवरी 2014
**(नायब सूबेदार(जी डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013)				
***	हवलदार (जी डी)	नारायण महादेव डोंगरे	(10119161 के अब जे सी 843544 के)	13 जनवरी 2014
***(नायब सूबेदार(जी डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013)				
****	हवलदार (जी डी)	राम भजन	(10404832 के अब जे सी 843559 एम)	21 जनवरी 2014
****	हवलदार (जी डी)	शेर बहादुर थापा	(10361458 डब्ल्यू अब जे सी 843560 एफ)	24 जनवरी 2014
****	हवलदार (जी डी)	चन्द्रन आर	(10328213 ए अब जे सी 843563 पी)	01 जनवरी 2014

****	हवलदार (जी डी) बालाराम सिंह	(8824025 के अब जे सी 843574 एफ)	01 जनवरी 2014
****	हवलदार (जी डी) शिवा नन्द मिश्रा	(10181420 के अब जे सी 843576 एम)	13 जनवरी 2014
****	(नायब सूबेदार(जी डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014)		
*****	हवलदार (जी डी) बलवीर सिंह	(4457032 एन अब जे सी 843578 एक्स)	01 फरवरी 2014
*****	हवलदार (जी डी) राम प्रसाद राम	(10197318 एल अब जे सी 843579 ए)	01 फरवरी 2014
*****	हवलदार (जी डी) युधिष्ठिर पतरा	(6376073 के अब जे सी 843580 पी)	01 फरवरी 2014
*****	हवलदार (जी डी) लखबीर सिंह	(3382158 एन अब जे सी 843581 एक्स)	13 फरवरी 2014
*****	हवलदार (जी डी) निर्मल सिंह	(3382330 के अब जे सी 843582 ए)	04 फरवरी 2014
*****	हवलदार (जी डी) जरनैल सिंह	(3382319 एल अब जे सी 843583 एच)	05 फरवरी 2014
*****	हवलदार (जी डी) जसविन्दर सिंह	(3383186 एम अब जे सी 843584 एल)	01 फरवरी 2014
*****	हवलदार (जी डी) भोसले रामाचन्द्रन	(10420005 एल अब जे सी 843585 एन)	01 फरवरी 2014
*****	हवलदार(जी डी) मुख्तियार सिंह	(3383269 एक्स अब जे सी 843586 डब्ल्यू)	01 फरवरी 2014
*****	हवलदार (जी डी) मोहिन्दर सिंह	(3382406 वाई अब जे सी 843587 वाई)	01 फरवरी 2014
*****	हवलदार (जी डी) बलविन्दर सिंह	(3382827 एफ अब जे सी 843588 एफ)	01 फरवरी 2014
*****	हवलदार (जी डी) मेहर सिंह	(3382361 के अब जे सी 843589 के)	01 फरवरी 2014
*****	(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014)		
*****	हवलदार (जी डी) चवन प्रकाश	(10118925 एल अब जे सी 843593 एम)	01 मार्च 2014
*****	हवलदार (जी डी) जोती राम बालू नदवाडेकर	(10146535 वाई अब जे सी 843595 एक्स)	01 मार्च 2014
*****	हवलदार (जी डी) आदित्य प्रसाद	(10389450 ए अब जे सी 843596 ए)	01 मार्च 2014
*****	हवलदार (जी डी) श्री निवास प्रसाद पटेल	(10181584 ए अब जे सी 843598 एल)	01 मार्च 2014
*****	हवलदार (जी डी) जोगिन्दर सिंह	(3382250 एम अब जे सी 843599 एन)	01 मार्च 2014
*****	हवलदार (जी डी) सचिदानन्द पाण्डेय	(14353043 एल अब जे सी 843600 एक्स)	01 मार्च 2014
*****	हवलदार (जी डी) राजेश्वर सिंह	(3981558 एल अब जे सी 843601 ए)	04 मार्च 2014
*****	(नायब सूबेदार(जी डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014)		
*****	हवलदार (जी डी) दिलीप कुमार पाठक	(10212191 एन अब जे सी 843606 वाई)	01 अप्रैल 2014
*****	हवलदार (जी डी) पी बालन	(10165624 एम अब जे सी 843607 एफ)	01 अप्रैल 2014
*****	हवलदार (जी डी) परवीन सिंह	(10314207 एफ अब जे सी 843608 के)	01 अप्रैल 2014
*****	हवलदार (जी डी) जय राम प्रसाद	(4257996 वाई अब जे सी 843609 एम)	01 अप्रैल 2014
*****	हवलदार (जी डी) सुखविन्दर सिंह	(3383287 ए अब जे सी 843611 के)	01 अप्रैल 2014
*****	हवलदार (जी डी) मोहिन्दर सिंह	(3383190 पी अब जे सी 843612 एम)	01 अप्रैल 2014
*****	हवलदार (जी डी) गुरनाम सिंह	(3382681 वाई अब जे सी 843613 पी)	01 अप्रैल 2014
*****	हवलदार (जी डी) हरपाल सिंह	(3383064 एच अब जे सी 843614 एच)	01 अप्रैल 2014
*****	हवलदार (जी डी) अमृत कुमार तामंग	(10373726 एफ अब जे सी 843615 ए)	01 अप्रैल 2014
*****	हवलदार (जी डी) रामाचन्द्रन नायर के एन	(10358619 एफ अब जे सी 843616 एफ)	01 अप्रैल 2014
*****	हवलदार (जी डी) सुरेश पाल	(10404323 एल अब जे सी 843617 एल)	01 अप्रैल 2014
*****	हवलदार (जी डी) विरेन्द्र नाथ यादव	(10181707 एफ अब जे सी 843619 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2014
*****	हवलदार (जी डी) बलबीर सिंह	(10479303 वाई अब जे सी 843620 एल)	01 अप्रैल 2014
*****	(नायब सूबेदार(जी डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014)		

नायब सूबेदार/लिपिक(एस डी) के रैंक में

*****	हवलदार	मदन लाल तिवारी	(8824159 एच अब	01 अगस्त 2008
	लिपिक(एस डी)		जे सी 842377 डब्ल्यू)	
*****	(नायब सूबेदार/लिपिक(एस डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008)			
*****	हवलदार	रामा शंकर तिवारी	(14228956 एम अब	01 मार्च 2014
	लिपिक(एस डी)		जे सी 843590 वाई)	
*****	हवलदार	डी सी गौतम	(8824093 एक्स अब	01 मार्च 2014
	लिपिक(एस डी)		जे सी 843591 एफ)	
*****	हवलदार	शिवा कुमारा बी	(10359409 पी अब	01 मार्च 2014
	लिपिक(एस डी)		जे सी 843592 के)	
*****	(नायब सूबेदार/लिपिक(एस डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014)			
*****	हवलदार	राजा जयाचन्द्रन आर	(1371417 वाई अब	01 अप्रैल 2014
	लिपिक(एस डी)		जे सी 843604 एन)	
*****	हवलदार	राजन लाल	(10389423 डब्ल्यू अब	01 अप्रैल 2014
	लिपिक(एस डी)		जे सी 843605 डब्ल्यू)	
*****	(नायब सूबेदार/लिपिक(एस डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014)			

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

*	हवलदार (जी डी)	अनुरुध कुमार देव	(8824188 एक्स अब जे सी 843541 डब्ल्यू)	05 मई 2014
*(	नायब सूबेदार(जी डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 नवम्बर 2013)			
**	हवलदार (जी डी)	परसन सिंह	(3383475 एफ अब जे सी 843597 एच)	12 जुलाई 2014
**	(नायब सूबेदार(जी डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014)			
***	हवलदार (जी डी)	दिनेश गुरुंग	(5040798 के अब जे सी 843610 एफ)	17 अप्रैल 2014
***	हवलदार (जी डी)	अशोक कुमार	(4174342 डब्ल्यू अब जे सी 843618 एन)	02 अप्रैल 2014
***	(नायब सूबेदार(जी डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014)			
****	हवलदार (जी डी)	नरेन्द्र सिंह कुशाबाह	(10404409 के अब जे सी 843621 एन)	01 मई 2014
****	(नायब सूबेदार(जी डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव/ प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014)			
****	हवलदार (जी डी)	सत्यपाल सिंह	(10404970 एल अब जे सी 843622 डब्ल्यू)	01 मई 2014
****	हवलदार (जी डी)	कुलवन्त सिंह	(10479227 के अब जे सी 843623 वाई)	02 मई 2014
****	हवलदार (जी डी)	विजय भान सिंह	(3169126 एच अब जे सी 843624 एफ)	01 मई 2014
****	हवलदार (जी डी)	रिशिपाल सिंह	(10404915 पी अब जे सी 843625 के)	01 मई 2014
****	हवलदार (जी डी)	प्रभु गोलीपल्ला	(10420314 एन अब जे सी 843626 एम)	01 मई 2014
****	हवलदार (जी डी)	चक्रवर्ती अलोक कुमार	(10436171 एच अब जे सी 843627 पी)	01 मई 2014
****	हवलदार (जी डी)	केवल क्रिशन	(13746059 एल अब जे सी 843628 एक्स)	31 मई 2014
****	हवलदार (जी डी)	राज कनवर	(10465775 के अब जे सी 843629 ए)	01 मई 2014
****	हवलदार (जी डी)	पी भास्करन	(10165530 पी अब जे सी 843630 पी)	01 मई 2014
****	हवलदार (जी डी)	महिन्दर कुमार	(10302060 के अब जे सी 843632 ए)	27 मई 2014
****	हवलदार (जी डी)	केशर सिंह	(1403464 एम अब जे सी 843633 एच)	01 मई 2014
****	हवलदार (जी डी)	चन्द्रा भान	(10389077 एल अब जे सी 843634 एल)	01 मई 2014
****	हवलदार (जी डी)	राम चरन पटेल	(10181523 एच अब जे सी 843635 एन)	01 मई 2014
****	हवलदार (जी डी)	बिश्ननाथ यादव	(10274028 डब्ल्यू अब जे सी 843636 डब्ल्यू)	05 मई 2014
****	(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव/ प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014)			

*****	हवलदार (जी डी)	नबीन कुमार प्रधान	(4260016 एक्स अब जे सी 843640 वाई)	02 जून 2014
*****	हवलदार (जी डी)	प्रकाश सिंह	(3382232 के अब जे सी 843641 एफ)	01 जून 2014
*****	हवलदार (जी डी)	पलकार धोनदीराम शंकर	(10146292 के अब जे सी 843642 के)	01 जून 2014
*****	हवलदार (जी डी)	हृदया नन्द राम यादव	(10389400 पी अब जे सी 843643 एम)	01 जून 2014
*****	हवलदार (जी डी)	परगत सिंह	(3383354 ए अब जे सी 843644 पी)	01 जून 2014
*****	हवलदार (जी डी)	केवल चन्द	(3380434 एम अब जे सी 843646 ए)	01 जून 2014
*****	हवलदार (जी डी)	योगेन्द्रा सिंह	(3173990 डब्ल्यू अब जे सी 843647 एच)	03 जून 2014
*****	हवलदार (जी डी)	मिथिलेश प्रसाद	(13888943 ए अब जे सी 843648 एल)	01 जून 2014
*****	हवलदार (जी डी)	मुन्शी राम	(3982090 पी अब जे सी 843649 एन)	02 जून 2014
*****	हवलदार (जी डी)	सतनाम सिंह	(3382792 डब्ल्यू अब जे सी 843650 एच)	01 जून 2014
*****	हवलदार (जी डी)	रेवत सिंह	(4062282 एल अब जे सी 843651 एल)	01 जून 2014
*****	हवलदार (जी डी)	ऊन्नी कृष्णन एम	(10165578 एच अब जे सी 843652 एन)	02 जून 2014
*****	हवलदार (जी डी)	सदानन्द झा	(10479000 के अब जे सी 843653 डब्ल्यू)	01 जून 2014
*****	हवलदार (जी डी)	माधव कवारखे	(10227361 एच अब जे सी 843654 वाई)	01 जून 2014
*****	(नायब सूबेदार(जी डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव/ प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014)			
*****	हवलदार (जी डी)	दिलीप शाम राव नल्तेय	(2778395 एक्स अब जे सी 843655 एफ)	01 जुलाई 2014
*****	हवलदार (जी डी)	गोपालजी पाण्डेय	(10259651 पी अब जे सी 843656 के)	01 जुलाई 2014
*****	हवलदार (जी डी)	सुरेनदर सिंह	(14451485 ए अब जे सी 843657 एम)	01 जुलाई 2014
*****	हवलदार (जी डी)	भोपिन्दर बहादुर पून	(10361457 एन अब जे सी 843658 पी)	01 जुलाई 2014
*****	हवलदार (जी डी)	बिजोय बाता बयाल	(8025738 ए अब जे सी 843659 एक्स)	02 जुलाई 2014
*****	हवलदार (जी डी)	के क्रिशनन	(10165591 एम अब जे सी 843660 एम)	01 जुलाई 2014
*****	हवलदार (जी डी)	एन के हरिदासन	(10328194 ए अब जे सी 843661 पी)	01 जुलाई 2014
*****	हवलदार (जी डी)	राजेन्द्रा कुमार रायमाने	(10420206 के अब जे सी 843662 एक्स)	01 जुलाई 2014
*****	हवलदार (जी डी)	मनवर सिंह	(10273712 एम अब जे सी 843663 ए)	01 जुलाई 2014
*****	(नायब सूबेदार(जी डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव/ प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014)			

आर पी एस नेगी
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 6, दिनांक 23 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

उड़न शाखा

एयर मार्शल के मूल रैंक में

क्रम सं	रैंक	नाम	संख्या	शाखा	दिनांक
1	एयर मार्शल	एस आर के नायर एवीएसएम वीएम	16040	उ(पा)	01.03.14

एयर वाईस मार्शल (उड़न शाखा) के मूल रैंक में :—

1	एयर वाईस मार्शल	आर इस्सर	16968	उ(पा)	01.07.14
2	एयर वाईस मार्शल	ए के नाभ	16608	उ(पा)	01.07.14
3	एयर वाईस मार्शल	एस सिंह	17312	उ(पा)	01.07.14

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा
एयर वाईस मार्शल के मूल रैंक में

एयर वाईस मार्शल	के एम एस प्रदीप	15818	वै.ई (वै)	22.04.13
-----------------	-----------------	-------	-----------	----------

संभारिकी शाखा
एयर वाईस मार्शल के मूल रैंक में

1	एयर वाईस मार्शल	जे बी इनामदार	16453	संभारिकी	01.05.14
---	-----------------	---------------	-------	----------	----------

उड़न शाखा
एयर कर्माडोर (उड़न) के मूल रैंक में :—

1	एयर कर्माडोर	बी एम त्यागी	18795	उ(पा)	01.08.13
2	एयर कर्माडोर	आर सिन्हा	18797	उ(पा)	01.08.13
3	एयर कर्माडोर	ए वोहरा	18801	उ(पा)	01.10.13
4	एयर कर्माडोर	टी सिंह	18806	उ(पा)	01.10.13
5	एयर कर्माडोर	आर रंजन	18810	उ(पा)	01.12.13

1	एयर कर्माडोर	बी साजू	18300	उ(पा)	18.03.13
इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में एयर कर्माडोर एस के इन्दोरिया (18296) उ(पा) से नीचे और एयर कर्माडोर एस चौहान (18550) उ(पा) से ऊपर प्रदर्शित होगा ।					
2	एयर कर्माडोर	के वी आर राजू	18573	उ(पा)	17.06.13
इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में एयर कर्माडोर डी वी वानी (18568) उ(पा) से नीचे प्रदर्शित होगा ।					
3	एयर कर्माडोर	जे मिश्रा	18575	उ(पा)	17.06.13
4	एयर कर्माडोर	यू कुमार	18582	उ(पा)	17.06.13
5	एयर कर्माडोर	एम रानाडे	18586	उ(पा)	17.06.13
6	एयर कर्माडोर	ए के भारती	18781	उ(पा)	17.06.13

प्रशासनिक शाखा
ग्रुप कैप्टन (प्रशासनिक शाखा) के मूल रैंक में

1	ग्रुप कैप्टन	आर वी रामकिशोर	20188	प्रशासनिक	01.04.13
2	ग्रुप कैप्टन	के एन यादव	20190	प्रशासनिक	03.07.13
3	ग्रुप कैप्टन	एस सिवकुमार	20205	प्रशासनिक	19.08.13
4	ग्रुप कैप्टन	ए कपूर	20583	प्रशासनिक	01.10.13
5	ग्रुप कैप्टन	के पी सोलंकी	20588	प्रशासनिक	07.10.13
6	ग्रुप कैप्टन	जे सिंह	20589	प्रशासनिक	01.11.13
7	ग्रुप कैप्टन	पी एस बसंती	20590	प्रशासनिक	01.04.14
8	ग्रुप कैप्टन	यू मनोज	20592	प्रशासनिक	01.04.14
9	ग्रुप कैप्टन	एन नागराजन	20597	प्रशासनिक	01.04.14
10	ग्रुप कैप्टन	एस ढाका	20600	प्रशासनिक	01.04.14
11	ग्रुप कैप्टन	एम के शर्मा	20602	प्रशासनिक	01.04.14
12	ग्रुप कैप्टन	आर पी सिंह	19474	प्रशासनिक	21.04.14 (कल्पित वरीयता— 01.04.14)
13	ग्रुप कैप्टन	वाई वेनुगोपाल	20054	प्रशासनिक	01.04.14
14	ग्रुप कैप्टन	एस बालाचन्द्रन	20060	प्रशासनिक	01.04.14
15	ग्रुप कैप्टन	टी एन पाण्डे	20062	प्रशासनिक	01.04.14
16	ग्रुप कैप्टन	जे एस गिल	20070	प्रशासनिक	01.04.14
17	ग्रुप कैप्टन	आर एन मगदूम	20187	प्रशासनिक	01.04.14
18	ग्रुप कैप्टन	बी के शर्मा	20193	प्रशासनिक	01.04.14
1	ग्रुप कैप्टन	पी ए नायडु	19469	प्रशासनिक	01.11.12
2	ग्रुप कैप्टन	ए के अरोरा	18878	प्रशासनिक	01.03.13

ए के सिंह
उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2 (बी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 10th January 2015

ARMY BRANCH

No. 5, Dated 22 December 2014—The President is pleased to make the following promotion/substantive :-

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar(GD)	Balbir Singh	(JC-528531W)	19 Dec 2013
Subedar(GD)	Birendar Singh	(JC-528477N)	26 Mar 2014
Subedar(GD)	Ranjit Singh	(JC-221025K)	17 Mar 2014
Subedar(GD)	Rajendra Prasad	(JC-257737Y)	01 Apr 2014
Subedar(GD)	Kishan Singh	(JC-841075W)	10 Mar 2014
Subedar(GD)	Bahadur Singh	(JC-402340P)	01 May 2014
Subedar(GD)	Bahadur Singh	(JC-538460N)	01 May 2014
Subedar(GD)	Bishan Singh Jat	(JC-841357M)	01 May 2014

To be Substantive Subedar Major/Clk (SD)

Subedar/Clk(SD)	Dharam Pal Singh	(JC-842034W)	01 Apr 2014
Subedar/Clk(SD)	A Haridasan	(JC-842135K)	01 May 2014

To be Substantive Subedar (GD)

Naib Subedar(GD)	Gangaram Chitti	(JC-257899H)	17 Jun 2012
Naib Subedar(GD)	Rajan MY	(JC-841494L)	01 Aug 2010
Naib Subedar(GD)	Thomas MD	(JC-841969K)	01 Mar 2013
Naib Subedar(GD)	Bakshish Singh	(JC-267444A)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Govind Gurung	(JC-842075A)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Dev Singh	(JC-412623K)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Ashok Kumar	(JC-580526A)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Tej Pal	(JC-374898L)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	M Fakuruddin	(JC-266364W)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Gurmit Singh	(JC-349129W)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Birendra Kumar Singh	(JC-558433L)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	M Rajendran	(JC-842474K)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Rajinder Singh	(JC-842544X)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Kawal Singh	(JC-842598Y)	20 May 2014
Naib Subedar(GD)	Hoshiyar Singh	(JC-403120X)	01 Mar 2014
Naib Subedar(GD)	Malkit Singh	(JC-842623M)	01 Apr 2014
Naib Subedar(GD)	Darshan Pal Singh	(JC-842624P)	01 Apr 2014
Naib Subedar(GD)	Rajinder Singh	(JC-842625X)	01 Apr 2014
Naib Subedar(GD)	Parkash	(JC-842626A)	01 Apr 2014

Naib Subedar(GD)	Sidhganesh Ashok Ambad	(JC-842627H)	01 Apr 2014
Naib Subedar(GD)	Hukam Chand	(JC-842628L)	01 Apr 2014
Naib Subedar(GD)	Ved Parkash	(JC-842629H)	01 Apr 2014
Naib Subedar(GD)	Mohender Singh	(JC-842634Y)	01 Apr 2014
Naib Subedar(GD)	SK Abdul Rafique	(JC-842636K)	01 Apr 2014
Naib Subedar(GD)	Shivji Tiwari	(JC-842639K)	01 Apr 2014
Naib Subedar(GD)	Jarnail Singh	(JC-842642X)	01 May 2014
Naib Subedar(GD)	Surinder Kumar, SM	(JC-592230N)	01 May 2014
Naib Subedar(GD)	Gurjant Singh	(JC-348330P)	01 May 2014
Naib Subedar(GD)	K Shanmugam	(JC-439224K)	01 May 2014
Naib Subedar(GD)	Bharat Lal Singh	(JC-469163M)	01 May 2014
Naib Subedar(GD)	Satyapal Singh	(JC-263323F)	01 May 2014

To be Substantive Subedar/Clk (SD)

Naib Subedar/Clk(SD)	Shamsher Singh	(JC-842633W)	19 Dec 2013
Naib Subedar/Clk(SD)	Venugopalan PV	(JC-842671M)	01 Apr 2014
Naib Subedar/Clk(SD)	Patil Bharat Waman	(JC-842673X)	01 Apr 2014
Naib Subedar/Clk(SD)	A Peter Francis	(JC-842675H)	01 May 2014
Naib Subedar/Clk(SD)	Jitendra Pratap Mohanty	(JC-842680N)	01 May 2014

In the rank of Subedar Major (GD)

Subedar Major (GD)	Ram Chandra Thapa	(JC-612334Y)	Formerly 4 GR	22 Jun 2013
Subedar Major (GD)	Gian Bahadur Gurung	(JC-617543A)	Formerly 5 GR	22 Jun 2013
Subedar Major (GD)	K B Muthu Pandian	(JC-367911F)	Formerly SIGNALS	22 Jun 2013
Subedar Major (GD)	Milkha Singh	(JC-508502A)	Formerly SIKH LI	23 Jun 2013
Subedar Major (GD)	Suresh Chand, SM	(JC-239206X)	Formerly ARMD	25 Jun 2013

In the rank of Subedar (GD)

Subedar(GD)	Tasdik	(JC-350132H)	Formerly BEG 'K'	22 Jun 2013
Subedar(GD)	Surendra Singh Thapa	(JC-623765L)	Formerly 5 G R	22 Jun 2013
Subedar(GD)	Ram Laxman Thapa	(JC-612312A)	Formerly 4 GR	22 Jun 2013
Subedar(GD)	Khim Bahadur Thapa	(JC-602726Y)	Formerly 4 G R	22 Jun 2013
Subedar(GD)	Jagrup Singh	(JC-726472A)	Formerly A O C	22 Jun 2013
Subedar(GD)	Sumer Singh Inda	(JC-412793N)	Formerly PARA	22 Jun 2013
Subedar(GD)	Mait Bahadur Pun	(JC-617812F)	Formerly 5 G R	22 Jun 2013
Subedar(GD)	Tika Ram Shrestha	(JC-634280H)	Formerly 11 G R	22 Jun 2013
Subedar(GD)	Chandra Pal Prajapati	(JC-349753P)	Formerly BEG K	22 Jun 2013
Subedar(GD)	Ganga Prasad Pandey	(JC-241880A)	Formerly ARMD	23 Jun 2013
Subedar(GD)	Yogamber Singh, SM	(JC-412760H)	Formerly PARA	23 Jun 2013

Subedar(GD)	Prahlad Ram Meena	(JC-241772W)	Formerly ARMD	23 Jun 2013
Subedar(GD)	Chander Singh	(JC-529570F)	Formerly GARH	23 Jun 2013
Subedar(GD)	George Britto	(JC-438751Y)	Formerly MADRAS	26 Jun 2013
Subedar(GD)	M Radhakrishnan	(JC-439482K)	Formerly MADRAS	27 Jun 2013

In the rank of Naib Subedar (GD)

Naib Subedar(GD)	Gobardhan Pradhan	(JC-623663P)	Formerly 5 GR	22 Jun 2013
Naib Subedar(GD)	Aouti Utreshwar Nagnath	(JC-351306K)	Formerly BEG K	22 Jun 2013
Naib Subedar(GD)	Tap Bahadur Rana	(JC-602682M)	Formerly 4 GR	22 Jun 2013
Naib Subedar(GD)	Karri Kanaka Rao	(JC-378766P)	Formerly SIGNALS	22 Jun 2013
Naib Subedar(GD)	Braham Singh	(JC-375760H)	Formerly SIGNALS	22 Jun 2013
Naib Subedar(GD)	Kharka Bahadur Gurung	(JC-623600M)	Formerly 5 GR	22 Jun 2013
Naib Subedar(GD)	Bir Bahadur Karki	(JC-623903F)	Formerly 5 GR	22 Jun 2013
Naib Subedar(GD)	VK Suresan	(JC-440686H)	Formerly MADRAS	23 Jun 2013
Naib Subedar(GD)	Arjun Singh	(JC-412698F)	Formerly PARA	23 Jun 2013
Naib Subedar(GD)	Brij Raj	(JC-843481L)	Formerly NAVY	23 Jun 2013
Naib Subedar(GD)	Pooran Lal Pali	(JC-240571L)	Formerly ARMD	24 Jun 2013
Nb Subedar(GD)	Uttam Singh	(JC-413406A)	Formerly PARA	24 Jun 2013
Nb Subedar(GD)	Jaswant Singh	(JC-726131P)	Formerly AOC	26 Jun 2013
Nb Subedar(GD)	Gagan Singh	(JC-520626F)	Formerly DOGRA	26 Jun 2013

In the rank of Subedar Major (GD)

Subedar Major (GD)	Mool Chand	(JC-488902H)	Formerly JAT	23 Mar 2013
Subedar Major (GD)	Yadhava Murty G	(JC-438779Y)	Formerly MADRAS	25 Mar 2013
Subedar Major (GD)	Parbhat Singh	(JC-260513H)	Formerly ARTY	29 Mar 2013

In the rank of Subedar (GD)

Subedar(GD)	Dinesh Singh	(JC-519461F)	Formerly DOGRA	23 Mar 2013
Subedar(GD)	Gajendra Singh Tomar	(JC-758326N)	Formerly EME	23 Mar 2013
Subedar(GD)	Chandra Mohan Singh	(JC-761794Y)	Formerly EME	23 Mar 2013
Subedar(GD)	Madan Lal	(JC-754653F)	Formerly EME	23 Mar 2013
Subedar(GD)	Ravindra Singh Yadav	(JC-270605H)	Formerly ARTY	24 Mar 2013
Subedar(GD)	Salim PH	(JC-458920W)	Formerly MLI	23 Mar 2013
Subedar(GD)	Krishna Lal Ghosh	(JC-370130Y)	Formerly SIGNALS	23 Mar 2013
Subedar(GD)	Jai Singh	(JC-489565L)	Formerly JAT	23 Mar 2013
Subedar(GD)	Durga Singh Gurung	(JC-617688L)	Formerly 3 GR	23 Mar 2013
Subedar(GD)	Bram Prakash	(JC-268290L)	Formerly ARTY	23 Mar 2013

In the rank of Naib Subedar (GD)

Naib Subedar(GD)	Gopal Dass	(JC-299743M)	Formerly AAD	23 Mar 2013
Naib Subedar(GD)	A Ismail	(JC-459370L)	Formerly MLI	23 Mar 2013
Naib Subedar(GD)	Rameshwar Prasad Singh	(JC-375146N)	Formerly SIGNALS	23 Mar 2013

Naib Subedar(GD)	Avtar Singh Sohi	(JC-277856P)	Formerly ARTY	23 Mar 2013
Naib Subedar(GD)	Anup Kumar Rana	(JC-607559X)	Formerly 3 GR	23 Mar 2013
Naib Subedar(GD)	Sukhbir Singh	(JC-264439K)	Formerly ARTY	25 Mar 2013
Naib Subedar(GD)	Chhering Wangial	(JC-588138X)	Formerly L/SCOUTS	23 Mar 2013
Naib Subedar(GD)	Krishna Bahadur Pun	(JC-602571P)	Formerly 4 GR	23 Mar 2013
Naib Subedar(GD)	Yogendra Kumar	(JC-377300A)	Formerly SIGNALS	23 Mar 2013
Naib Subedar(GD)	Padam Prasad Limbu	(JC-634605L)	Formerly 11 GR	23 Mar 2013
Naib Subedar(GD)	Lakhwinder Singh	(JC-375340H)	Formerly SIGNALS	23 Mar 2013
Naib Subedar(GD)	Uttam Chand Rana	(JC-755103L)	Formerly EME	23 Mar 2013
Naib Subedar(GD)	A Manikandan	(JC-239364M)	Formerly ARMD	23 Mar 2013
Naib Subedar(GD)	Ramraj Maurya	(JC-760370W)	Formerly EME	24 Mar 2013
Naib Subedar(GD)	Sudarsan Yadav	(JC-681181L)	Formerly ASC	25 Mar 2013

In the rank of Subedar Major (GD)

Subedar Major (GD)	Inder Singh	(JC-529343F)	Formerly GARH	26 Oct 2013
Subedar Major (GD)	Jagdish Chand	(JC-579404K)	Formerly JAK RIF	26 Oct 2013
Subedar Major (GD)	B Purushotham Chetty	(JC-260237L)	Formerly ARTY	26 Oct 2013
Subedar Major (GD)	K Selvam	(JC-412616N)	Formerly PARA	26 Oct 2013
Subedar Major (GD)	Krishna Nand Tewari	(JC-539252L)	Formerly KUMAON	27 Oct 2013

In the rank of Subedar (GD)

Subedar(GD)	Avtar Singh, SM	(JC-429567M)	Formerly PUNJAB	26 Oct 2013
Subedar(GD)	Jagtar Singh	(JC-580457P)	Formerly JAK RIF	26 Oct 2013
Subedar(GD)	Soor Bir Singh	(JC-529726N)	Formerly GARH	26 Oct 2013
Subedar(GD)	Dabal Singh	(JC-530220F)	Formerly GARH	26 Oct 2013
Subedar(GD)	Rajesh Singh	(JC-810751W)	Formerly INT	26 Oct 2013
Subedar(GD)	Hema Ram	(JC-375745N)	Formerly SIGNALS	26 Oct 2013
Subedar(GD)	Babu Ram	(JC-593073Y)	Formerly JAK LI	26 Oct 2013
Subedar(GD)	Jiwan Singh	(JC-263155N)	Formerly ARTY	26 Oct 2013
Subedar(GD)	Swran Singh	(JC-266186Y)	Formerly ARTY	26 Oct 2013
Subedar(GD)	Vinod Kumar P	(JC-269010Y)	Formerly ARTY	26 Oct 2013
Subedar(GD)	Keshar Singh Dhami	(JC-403452F)	Formerly GUARDS	27 Oct 2013
Subedar(GD)	D Karunagaran	(JC-439611Y)	Formerly MADRAS	27 Oct 2013
Subedar(GD)	Paramhans Yadava	(JC-663816W)	Formerly ASC	31 Oct 2013

In the rank of Naib Subedar (GD)

Naib Subedar(GD)	Yontan Yugnes	(JC-588189L)	Formerly L/SCOUTS	26 Oct 2013
Naib Subedar(GD)	Mehar Singh	(JC-499587X)	Formerly SIKH	26 Oct 2013
Naib Subedar(GD)	Kulwant Singh	(JC-430318A)	Formerly PUNJAB	26 Oct 2013
Naib Subedar(GD)	Brij Bhan Singh	(JC-420629A)	Formerly MECH	26 Oct 2013
Naib Subedar(GD)	Harish Chandra Kapri	(JC-539770L)	Formerly KUMAON	26 Oct 2013

Naib Subedar(GD)	Govind Ballabh	(JC-540500H)	Formerly KUMAON	26 Oct 2013
Naib Subedar(GD)	Kulbir Singh	(JC-580199A)	Formerly JAK RIF	26 Oct 2013
Naib Subedar(GD)	Rajendra Prasad	(JC-403900H)	Formerly GUARDS	26 Oct 2013
Naib Subedar(GD)	Sarbjit Singh	(JC-499146F)	Formerly SIKH	26 Oct 2013
Naib Subedar(GD)	Madan Lal Sharma	(JC-508740M)	Formerly SIKH LI	27 Oct 2013
Nb Subedar(GD)	Manohar Singh Kanyal	(JC-338935H)	Formerly BEG 'R'	27 Oct 2013

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar(GD)	B Purushotham Chetty	(JC-260237L)	19 Dec 2013
Subedar(GD)	Naval Kishore	(JC-418922Y)	19 Dec 2013
Subedar(GD)	Jagdish Chand	(JC-579404K)	19 Dec 2013
Subedar(GD)	Inder Singh	(JC-529343F)	19 Dec 2013
Subedar(GD)	K Selvam	(JC-412616N)	19 Dec 2013
Subedar(GD)	Ravendra Singh	(JC-143357N)	08 Jul 2014

To be Substantive Subedar (GD)

Naib Subedar(GD)	Bikram Kumar	(JC-429122A)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Arun Kumar	(JC-842383A)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Amba Datt	(JC-662935A)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Tika Ram Shrestha	(JC-634280H)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Chander Singh	(JC-529570F)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Chandra Pal Prajapati	(JC-349753P)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Surendra Singh Thapa	(JC-623765L)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Mait Bahadur Pun	(JC-617812F)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Atish Kumar Das Dev Sarma	(JC-239411Y)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	M Radhakrishnan	(JC-439482K)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Chanchal Singh	(JC-539054A)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Anil Kumar	(JC-297409M)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Sukhvinder Singh	(JC-498699L)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Bibhishan Pandey	(JC-261444K)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Dalwinder Singh	(JC-498857P)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Krishan Dev	(JC-519689X)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Swaran Singh	(JC-266186Y)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Chain Singh	(JC-519665N)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Avtar Singh, SM	(JC-429567M)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Rajesh Singh	(JC-810751W)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Udaybir Singh	(JC-756547F)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Ram Karan Gujar	(JC-270705M)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Keshar Singh Dhami	(JC-403452F)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Rakesh Kumar Sharma	(JC-403691W)	19 Dec 2013

Naib Subedar(GD)	Ravinder Kumar	(JC-642811K)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Parmhans Yadava	(JC-663816W)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Teju Ram Pradhan	(JC-634205Y)	01 Jul 2014
Naib Subedar(GD)	Rameshwar Prasad	(JC-568577F)	01 Jul 2014
Naib Subedar(GD)	Bhasme Vishwas Dhondiram	(JC-260073A)	01 Aug 2014
Naib Subedar(GD)	Gyanendra Singh	(JC-478877F)	01 Aug 2014
Naib Subedar(GD)	Awtar Singh	(JC-498936K)	01 Aug 2014
Naib Subedar(GD)	Rotash Singh	(JC-478927F)	01 Aug 2014
Naib Subedar(GD)	Dhian Singh	(JC-579606L)	01 Aug 2014
Naib Subedar(GD)	Jagan Nath	(JC-519757A)	01 Aug 2014
Naib Subedar(GD)	Bodhraj	(JC-519861N)	01 Aug 2014
Naib Subedar(GD)	Voakil Prasad	(JC-842691A)	01 Aug 2014
Naib Subedar(GD)	Prahalad Ram Jat	(JC-241478W)	01 Aug 2014
Naib Subedar(GD)	Veer Singh	(JC-241606H)	01 Aug 2014

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar(GD)	Narinder Kumar Chandel	(JC-578764N)	19 Dec 2013
Subedar(GD)	Kanwar Singh	(JC-478462M)	02 Jun 2014
Subedar(GD)	Des Raj	(JC-239250F)	04 Jun 2014
Subedar(GD)	Rambir Singh	(JC-841180K)	01 Jul 2014

To be Substantive Subedar (GD)

Naib Subedar(GD)	Balram Singh	(JC-264070K)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Prag Singh	(JC-265480M)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Dharamvir	(JC-267403W)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Tej Singh Khangarot	(JC-469707W)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Tayade Gangadhar Ananda	(JC-459604K)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Mulani Najarudin Alli	(JC-459687A)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Dhir Babahdur Gurung	(JC-612569L)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Saran Singh	(JC-592410W)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Dan Bahadur Karki	(JC-629689A)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Pala Mukesh Chandra C	(JC-843213H)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Sasidharan Pillai P	(JC-8742225L)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Shree Ram Khicher	(JC-842229F)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Jangsher Singh	(JC-498742F)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Vijay Kishor Singh	JC-240496M)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	B Ramesh	(JC-438566L)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Lal Singh	(JC-265232W)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Balwant Singh	(JC-412583N)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Kanta Prasad, SM	(JC-528955P)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Jagdev Singh	JC-842280F)	19 Dec 2013

Naib Subedar(GD)	Dharam Singh	(JC-498454P)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Ram Kumar	JC-419600L)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Devinder Singh	(JC-258120N)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Pradhan Singh	(JC-842290L)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Tashi Wangial	(JC-588190A)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Bhupinder Singh	(JC-499113W)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Khem Bahadur Gurung	(JC-612476W)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Eman Singh Gurung	(JC-623495F)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Nek Ram	(JC-520227X)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Prem Singh	(JC-450180X)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Prem Kaji Gurung, SM	(JC-612355P)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Durga Sing Gurung	(JC-617688L)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Madan Lal	(JC-754653F)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Ravindra Singh Yadav	(JC-270605H)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Nirmal Singh	(JC-829222Y)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Sunder Singh	(JC-842456F)	19 Dec 2013
Naib Subedar(GD)	Ram Saran	(JC-842650W)	01 Jun 2014
Naib Subedar(GD)	Mohd Akram	(JC-592366X)	02 Jul 2014
Naib Subedar(GD)	Gandharva Singh Tomar	(JC-842682Y)	01 Jul 2014
Naib Subedar(GD)	Jai Bhagwan	(JC-842683F)	01 Jul 2014
Naib Subedar(GD)	Netar Pal Singh	(JC-842686P)	01 Jul 2014
Naib Subedar(GD)	Mehra Amar Singh	(JC-219601K)	02 Jul 2014
Naib Subedar(GD)	Soman Pillai G	(JC-347171W)	04 Jul 2014
Naib Subedar(GD)	Didar Singh	(JC-508446M)	02 Jul 2014

To be Naib Subedar (GD)

*	Hav(GD)	Deshmukh Ramesh Baji Rao	10436083M JC-843521H	Now	21 Jan 2014
*	Hav(GD)	Jang Babadur Thakur	10373328A JC-843523N	Now	24 Feb 2014
*	Hav(GD)	Hans Raj	10389511M JC-843530K	Now	24 Jan 2014

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub(GD) wef 01 Oct 2013 without effect on pay and allowances)

**	Hav(GD)	Rajbir Singh	4551252W JC-843539Y	Now	30 Jan 2014
----	---------	--------------	------------------------	-----	-------------

**(Gtd seniority in the rank of Nb Sub(GD) wef 01 Nov 2013 without effect on pay and allowances)

***	Hav(GD)	Narayan Mahadeo Dongre	10119161K JC-843544K	Now	13 Jan 2014
-----	---------	------------------------	-------------------------	-----	-------------

***(Gtd seniority in the rank of Nb Sub(GD) wef 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances)

****	Hav(GD)	Ram Bhajan	10404832K JC-843559M	Now	21 Jan 2014
****	Hav(GD)	Sher Bahadur Thapa	10361458W JC-843560F	Now	24 Jan 2014
****	Hav(GD)	Chandran R	10328213A JC-843563P	Now	01 Jan 2014
****	Hav(GD)	Balaram Singh	8824025K JC-843574F	Now	01 Jan 2014
****	Hav(GD)	Shiva Nand Mishra	10181420K JC-843576M	Now	13 Jan 2014

****(Gtd seniority in the rank of Nb Sub(GD) wef 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances)

*****	Hav(GD)	Balvir Singh	4457032N JC-843578X	Now	01 Feb 2014
*****	Hav(GD)	Ram Parshad Ram	10197318L JC-843579A	Now	01 Feb 2014
*****	Hav(GD)	Yudhisthir Patra	6376073K JC-843580P	Now	01 Feb 2014
*****	Hav(GD)	Lakhibir Singh	3382158N JC-843581X	Now	13 Feb 2014
*****	Hav(GD)	Nirmal Singh	3382330K JC-843582A	Now	04 Feb 2014
*****	Hav(GD)	Jarnail Singh	3382319L JC-843583H	Now	05 Feb 2014
*****	Hav(GD)	Jaswinder Singh	3383186M JC-843584L	Now	01 Feb 2014
*****	Hav(GD)	Bhosale Ramachandran	10420005L JC-843585N	Now	01 Feb 2014
*****	Hav(GD)	Mukhtiar Singh	3383269X JC-843586W	Now	01 Feb 2014
*****	Hav(GD)	Mohinder Singh	3382406Y JC-843587Y	Now	01 Feb 2014
*****	Hav(GD)	Balwinder Singh	3382827F JC-843588F	Now	01 Feb 2014
*****	Hav(GD)	Mehar Singh	3382361K JC-843589K	Now	01 Feb 2014

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub(GD) wef 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances)

*****	Hav(GD)	Chavan Prakash	10118925L JC-843593M	Now	01 Mar 2014
*****	Hav(GD)	Joti Ram Balu Nadwadekar	10146535Y JC-843595X	Now	01 Mar 2014
*****	Hav(GD)	Aditya Prasad	10389450A JC-843596A	Now	01 Mar 2014
*****	Hav(GD)	Shri Niwas Prasad Patel	10181584A JC-843598L	Now	01 Mar 2014

***** Hav(GD) Joginder Singh 3382250M Now 01 Mar 2014
JC-843599N

***** Hav(GD) Sachida Nand Pandey 14353043L Now 01 Mar 2014
JC-843600X

***** Hav(GD) Rajeshwar Singh 3981558L Now 04 Mar 2014
JC-843601A

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub(GD) wef 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances)

***** Hav(GD) Dilip Kumar Pathak 10212191N Now 01 Apr 2014
JC-843606Y

***** Hav(GD) P Balan 10165624M Now 01 Apr 2014
JC-843607F

***** Hav(GD) Parveen Singh 10314207F Now 01 Apr 2014
JC-843608K

***** Hav(GD) Jay Ram Prasad 4257996Y Now 01 Apr 2014
JC-843609M

***** Hav(GD) Sukhwinder Singh 3383287A Now 01 Apr 2014
JC-843611K

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub(GD) wef 01 Apr 2014 without effect on pay and allowances)

***** Hav(GD) Mohinder Singh 3383190P Now 01 Apr 2014
JC-843612M

***** Hav(GD) Gurnam Singh 3382681Y Now 01 Apr 2014
JC-843613P

***** Hav(GD) Harpal Singh 3383064H Now 01 Apr 2014
JC-843614H

***** Hav(GD) Amrit Kumar Tamang 10373726F Now 01 Apr 2014
JC-843615A

***** Hav(GD) Ramachandran Nair KN 10358619H Now 01 Apr 2014
JC-843616H

***** Hav(GD) Suresh Pal 10404323L Now 01 Apr 2014
JC-843617L

***** Hav(GD) Virendra Nath Yadav 10181707F Now 01 Apr 2014
JC-843619W

***** Hav(GD) Balbir Singh 10479303Y Now 01 Apr 2014
JC-843620L

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub(GD) wef 01 Apr 2014 without effect on pay and allowances)

[To be Naib Subedar/Clk(SD)]

***** Hav/Clk Madan Lal Tiwari 8824159H Now 01 Aug 2008
(SD) JC-842377W

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk(SD) wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

***** Hav/Clk Rama Shankar Tiwary 14228956M Now 01 Mar 2014
(SD) JC-843590Y

*****	Hav/Clk (SD)	DC Goutam	8824093X JC-843591F	Now	01 Mar 2014
*****	Hav/Clk (SD)	Shiva Kumara B	10359409P JC-843592K	Now	01 Mar 2014
***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk(SD) wef 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances)					
*****	Hav/Clk (SD)	Raja Jayachandran R	1371417Y JC-843604N	Now	01 Apr 2014
*****	Hav/Clk (SD)	Rajan Lal	10389423W JC-843605W	Now	01 Apr 2014
***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk(SD) wef 01 Apr 2014 without effect on pay and allowances)					
[To be Naib Subedar (GD)]					
*	Hav(GD)	Anurudh Kumar Dev	8824188X JC-843541W	Now	05 May 2014
* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub(GD) wef 24 Nov 2013 without effect on pay and allowances)					
**	Hav(GD)	Parsan Singh	3383475F JC-843597H	Now	12 Jul 2014
** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub(GD) wef 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances)					
***	Hav(GD)	Dinesh Gurung	5040798K JC-843610F	Now	17 Apr 2014
***	Hav(GD)	Ashok Kumar	4174342W JC-843618N	Now	02 Apr 2014
*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub(GD) wef 01 Apr 2014 without effect on pay and allowances)					
****	Hav(GD)	Narendra Singh Kushbaha	10404409K JC-843621N	Now	01 May 2014
****	Hav(GD)	Satyapal Singh	10404970L JC-843622W	Now	01 May 2014
****	Hav(GD)	Kulwant Singh	10479227K JC-843623Y	Now	02 May 2014
****	Hav(GD)	Vijay Bhan Singh	3169126H JC-843624F	Now	01 May 2014
****	Hav(GD)	Rishipal Singh	10404915P JC-843625K	Now	01 May 2014
****	Hav(GD)	Prabhu Golipalla	10420314N JC-843626M	Now	01 May 2014
****	Hav(GD)	Chakrabarthi Alok Kumar	10436171H JC-843627P	Now	01 May 2014
****	Hav(GD)	Kewal Krishan	13746059L JC-843628X	Now	31 May 2014
****	Hav(GD)	Raj Kanwar	10465775K JC-843629A	Now	01 May 2014
**** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub(GD) wef 01 May 2014 with/without effect on pay and allowances)					

****	Hav(GD)	P Bhaskaran	10165530P JC-843630P	Now	01 May 2014
****	Hav(GD)	Mahinder Kumar	10302060K JC-843632A	Now	27 May 2014
****	Hav(GD)	Keshar Singh	1403464M JC-843633H	Now	01 May 2014
****	Hav(GD)	Chandra Bhan	10389077L JC-843634L	Now	01 May 2014
****	Hav(GD)	Ram Charan Patel	10181523H JC-843635N	Now	01 May 2014
****	Hav(GD)	Biswanath Yadav	10274028W JC-843636W	Now	05 May 2014
*****(Gtd seniority in the rank of Nb Sub(GD) wef 01 May 2014 with/without effect on pay and allowances)					
*****	Hav(GD)	Nabin Kumar Pradhan	4260016X JC-843640Y	Now	02 Jun 2014
*****	Hav(GD)	Prakash Singh	3382232K JC-843641F	Now	01 Jun 2014
*****	Hav(GD)	Palkar Dhondiram Shankar	10146392K JC-843642K	Now	01 Jun 2014
*****	Hav(GD)	Hridya Nand Ram Yadav	10389400P JC-843643M	Now	01 Jun 2014
*****	Hav(GD)	Pargat Singh	3383354A JC-843644P	Now	01 Jun 2014
*****	Hav(GD)	Kewal Chand	3380434M JC-843646A	Now	01 Jun 2014
*****	Hav(GD)	Yogendra Singh	3173990W JC-843647H	Now	03 Jun 2014
*****	Hav(GD)	Mithilesh Prasad	13888943A JC-843648L	Now	01 Jun 2014
*****	Hav(GD)	Munshi Ram	3982090P JC-843649N	Now	02 Jun 2014
*****	Hav(GD)	Satnam Singh	3382792W JC-843650H	Now	01 Jun 2014
*****	Hav(GD)	Rewat Singh	4062282L JC-843651L	Now	01 Jun 2014
*****	Hav(GD)	Unni Krishnan M	10165578H JC-843652N	Now	02 Jun 2014
*****	Hav(GD)	Sada Nand Jha	10479000K JC-843653W	Now	01 Jun 2014
*****	Hav(GD)	Madhav Kawarkhe	10227361H JC-843654Y	Now	01 Jun 2014
******(Gtd seniority in the rank of Nb Sub(GD) wef 01 Jun 2014 with/without effect on pay and allowances)					
*****	Hav(GD)	Dilip Sham Rao Naltey	2778395X JC-843655F	Now	01 Jul 2014

***** Hav(GD) Gopalji Pandey 10259651P Now 01 Jul 2014
JC-843656K

***** Hav(GD) Surender Singh 14451485A Now 01 Jul 2014
JC-843657M

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub(GD) wef 01 Jul 2014 with/without effect on pay and allowances)

***** Hav(GD) Bhopinder Bahadur Pun 10361457N Now 01 Jul 2014
JC-843658P

***** Hav(GD) Bijoy Bata Bayal 8025738A Now 02 Jul 2014
JC-843659X

***** Hav(GD) K Krishnan 10165591M Now 01 Jul 2014
JC-843660M

***** Hav(GD) NK Haridasan 10328194A Now 01 Jul 2014
JC-843661P

***** Hav(GD) Rajendra Kumar Rayamane 10420206K Now 01 Jul 2014
JC-843662X

***** Hav(GD) Manwar Singh 10273712M Now 01 Jul 2014
JC-843663A

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub(GD) wef 01 Jul 2014 with/without effect on pay and allowances)

R. P. S. NEGI
Under Secretary

AIR BRANCH

No. 6, Dated 23 December 2014—THE PRESIDENT IS PLEASED TO MAKE THE FOLLOWING
SUBSTANTIVE PROMOTIONS: -

INDIAN AIR FORCE
FLYING BRANCH

TO BE SUBSTANTIVE AIR MARSHAL

SL NO	RANK	NAME	NO	BR	DATE
1	AIR MSHL	SRK NAIR AVSM VM	16040	F(P)	01.03.14

TO BE SUBSTANTIVE AIR VICE MARSHAL

1	AVM	R ISSER	16968	F(P)	01.07.14
2	AVM	AK NABH	16608	F(P)	01.07.14
3	AVM	S SINGH	17312	F(P)	01.07.14

AVM	KMS PRADEEP	15818	AE(L)	22.04.13
-----	-------------	-------	-------	----------

1	AVM	JB INAMDAR	16453	LGS	01.05.14
---	-----	------------	-------	-----	----------

TO BE SUBSTANTIVE AIR CMDE (FLYING BRANCH)

1	AIR CMDE	BM TYAGI	18795	F(P)	01.08.13
2	AIR CMDE	R SINHA	18797	F(P)	01.08.13
3	AIR CMDE	A VOHRA	18801	F(P)	01.10.13
4	AIR CMDE	T SINGH	18806	F(P)	01.10.13
5	AIR CMDE	R RANJAN	18810	F(P)	01.12.13

1	AIR CMDE	B SAJU	18300	F(P)	18.03.13
HIS NAME WILL APPEAR BELOW AIR CMDE SK INDORIA (18296) F(P) AND ABOVE AIR CMDE S CHAUHAN (18550) F(P) IN THE COMBINED GRADATION LIST					
2	AIR CMDE	KVR RAJU	18573	F(P)	17.06.13
HIS NAME WILL APPEAR BELOW AIR CMDE DV WANI (18568) F(P) IN THE COMBINED GRADATION LIST					
3	AIR CMDE	J MISHRA	18575	F(P)	17.06.13
4	AIR CMDE	U KUMAR	18582	F(P)	17.06.13
5	AIR CMDE	M RANADE	18586	F(P)	17.06.13
6	AIR CMDE	AK BHARTI	18781	F(P)	17.06.13

TO BE SUBSTANTIVE GP CAPT (ADM BRANCH)

01	GP CAPT	RV RAMKISHORE	20188	ADM	01.04.13
02	GP CAPT	KN YADAV	20190	ADM	03.07.13
03	GP CAPT	S SIVAKUMAR	20205	ADM	19.08.13
04	GP CAPT	A KAPUR	20583	ADM	01.10.13
05	GP CAPT	KP SOLANKI	20588	ADM	07.10.13
06	GP CAPT	J SINGH	20589	ADM	01.11.13
07	GP CAPT	PS BASANTI	20590	ADM	01.04.14
08	GP CAPT	U MANOJ	20592	ADM	01.04.14
09	GP CAPT	N NAGARAJAN	20597	ADM	01.04.14
10	GP CAPT	S DHAKA	20600	ADM	01.04.14
11	GP CAPT	MK SHARMA	20602	ADM	01.04.14
12	GP CAPT	RP SINGH	19474	ADM	21.04.14 (NS-01.04.14)
13	GP CAPT	Y VENUGOPAL	20054	ADM	01.04.14
14	GP CAPT	S BALACHANDRAN	20060	ADM	01.04.14
15	GP CAPT	TN PANDEY	20062	ADM	01.04.14
16	GP CAPT	JS GILL	20070	ADM	01.04.14
17	GP CAPT	RN MAGADUM	20187	ADM	01.04.14
18	GP CAPT	BK SHARMA	20193	ADM	01.04.14

01	GP CAPT	PA NAIDU	19469	ADM	01.11.12
02	GP CAPT	AK ARORA	18878	ADM	01.03.13

AK SINGH
DY DIR PERSONNEL (OFFICER) – 2B

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in